



DOLLEX AGROTECH LIMITED

Reg. Office: 205, Naroli Arcade, 19/1, Manorama Ganj, Palasia Square, Indore-452001 (M.P.) Factory: Village Erai, Tehsil Badoni Khurd, Dist. Datia-475686 (M.P.) Formerly known as Dollex Agrotech Private Limited

Date: 03rd June, 2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot no. C-1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 Symbol: DOLLEX ISIN: INE0JHH01011

Sub: Intimation as per Regulation 84 of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements), 2018, as amended ("SEBI ICDR Regulations")-Issue of advertisement in newspapers with respect to Extension of Right Issue Timeline.

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject matter, we would like to notify you that, the extension of Rights Issue timeline advertisement has been published on June 02, 2025 in the following newspapers

- 1. Business Standard, English national daily newspaper with wide circulation
- 2. Business Standard, Hindi national daily & Regional language daily newspaper with wide circulation Copy of the above advertisement will also be made available on the website of the Company at www.dollex.in.

Kindly take the above information on your records.

Thanking You,

Yours faithfully

For Dollex Agrotech Limited

Siddhi Banthiya Company Secretary & Compliance Officer.

Encl: a/a











Trip cancellation and delay

Trip cancellation, curtailment, or delay can cause significant losses, as each trip usually linvolves several non-refundable bookings. The ideal coverage amount should be equivalent to, or slightly higher than, the total non-refundable trip expenses. "For most international trips, a coverage amount of \$2 0,000.

erage amount of \$2,000

country travel, a higher sum may be warranted," says Deshmukh.

emergency evacuation
The personal accident cover pays

a lump sum in the event of death or serious injury due to an accid-

ent. "For personal accident and accidental death cover, a sum

insured of \$50,000-1,00,000 is generally sufficient," says Deshmukh. For emergency evacuation and repatriation, Deshmukh recommends a

cover of \$50,000-100,000

3,000 is generally adequate. For luxury vacations or multi-

Apollo likely to gain from hospital growth

Brokerages upbeat on stock with hope of digital biz breakeven

RAM PRASAD SAHU

Results of India's largest listed healthcare company, Apollo Hospi-tals, for the fourth quarter of 2024 25 (Q4FY25) were a mixed bag Revenues for the mainstay hospitals business were impacted by lower patient inflows from Bangladesh while occupancy levels too

desh while occupancy levels too were lower on a sequential basis. Given the expansion in bed capacity, margins are expected to come down, prompting some brokerages to cut their earnings estimates. Despite the pressure on profitability, most analysts are positive on the stock, given strong revenue growth in the hospital segment, breakeven in the digital healthcare business (Healthco), and expansion as well as margin gains in the retail healthcare segment housed under Apollo Health and Lifestyle (AHLL). The stock is up 14-5 per cent over the past three months, and is currently trading at 76-913 per share.

past three months, and is currently trading at ₹6,913 per share.

The company delivered a 10 per cent year-on-year (Y-o-Y) growth in the hospitals business in Q4, which the nospitals outsiness in Q4, white was below estimates due to lower patient inflows from Bangladesh. While occupancies were up by 200 basis points (bps) to 67 per cent, average revenue per operating bed (ARPOB) rose 7 per cent.

Growth in FY25 came in at 13 per cent led by better commons and

Growth in FY25 came in at 13 per cent led by better occupancy and favourable case mix. The lower-than-estimated growth in Q4 was on account of North India, East India and Tamil Nadu while Karnataka, Andhar Pradesh, Telangana, and West India did well. Going ahead, the company expects the existing hospital network to deliver rowersh in the low-to-mid tenson. growth in the low-to-mid teens or ack of improved occupancy



Steady upmove



Jun 2. 2025

140 bps operating profit margin hit from new hospitals in FY26. It expects to offset this impact by an 80 bps improvement in costs and 60 bps improvement from better payer mix, case mix, and higher occupancies in existing hospitals occupancies in existing hospitals. The new units are expected to contribute ₹1,000 crore in sales in FY27

Feb 28, 2025

while weighing on margins a YZ.
while weighing on margins a bit.
Analysts led by Alankar Garude
of Kotak Research factor in a60 bps
decline in hospital operating profit
margins in FY26 to 23.6 per cent.
They estimate hospital sales and
operating profit to grow by 16 per

operating profit to grow by 16 per cent each over FY25,FY24, Apollo is their preferred pick in the hospital space, with a target price of 78,850. Given the plan for 1,500-plus beds in FY26 (20 per cent addition) coupled with low-teens growth expectations from existing beds, Nuvama Research believes hospital

revenue can expand at 16 per cent annually over FY25-FY27. Further, an incremental 2,400 bed additions planned over the next three-four years should keep the growth engine running. Analysts led by Asashita Jain of Nuvama Research believe execution would be key, and they have built in an 80 bps margin impact in FY27. The brokerage has

impact in FYZ, The brokerage has retained a "buy" rating, with an unchanged target price of ₹8,200. In addition to the hospitals business, the progress on the breakeven of the digital business and the growth in the retail healthcare business (AHLI) are crucial for consoli-dated financials.

AHII delivered a robust Od. dated

AHLL delivered a robust Q4, riding on a revenue growth of 11 per cent, and operating profit margin expansion of 190 bps on the back of superior execution. The company has been trying to improve the profitability of this business over the last few quarters and has closed lossmaking centres. The cash loss in the digital segment has come down AHLL delivered a robust O4. from ₹110 crore in O4FY24 to ₹79.8 crore in Q4FY25, and is expected to break even in Q2/Q3FY26.

break even in Q2/Q3FY26.

HDFC Securities says there is strong growth visibility across Apollo key segments of hospitals (improving occupancy, ARPOB growth and capacity expansion), Healthco (steady offline growth and

Healthoo(steadyoffline growth and scaling up of the digital business), and AHLL (consistent growth and margin improvement). The brokerage has maintained a "buy" rating, Motilal Oswall Research to has reiterated a "buy" rating and expects a 23 per cent net profit growth in FY25-FY27, Tushar Manudhane of the brokerage believes that this would mainty be driven by the addition of beds in the driven by the addition of beds in the healthcare services segment coupled with improvement in pro-ductivity at existing facilities, reduction in losses at the Healthco level, and revival in revenue growth/profitability in the diag-nostic segment.



Factor in medical costs. own age, health when deciding coverage

frequently and spend more on requently antispent intorior travel. According to the India Holiday Report 2025 by Thomas Cook and SOTC, 85 per cent of respondents plan to increase their annual holidays from two to four or six trips. About their annual holidays from two to four or six trips. About 84 per cent expect to boost their travel budgets by 20-50 per cent in 2025, with over 18 per cent targeting a 50 per cent increase. Before travelling abroad, it is crucial to buy a travel insurance policy with an adequate sum insured.

"Do not underinsure yourself while travelling abroad and consider your policy's sub-limits," says Chandrakant, vice president consumer underwriting, TATA AIG General Insurance.

Healthcare costs Healthcare costs in the destina-tion country should be the pri-mary consideration when deciding the sum insured.

countries like the US and

countries like the US and Canada," says Ramit Goyal, chief distribution officer, Future Generali India Insurance. For the US and Canada, Goyal suggests coverage between \$2.5-5 lakh. For Schengen countries, while the minimum visa require-ment is \$30,000 (\$34.256), Goyal recommends coverage of \$1-2 recommends coverage of \$1-2 lakh. For Southeast Asian cou

lakh. For Southeast Asian coun-ries, he suggests \$50,000-1 lakh, depending on trip length. Age and health conditions must be factored in. "A 60-year-old individual with hypertension travelling to the US should opt

for a higher medical sum insured of above \$3 lakh. They should also consider products that offer

also consider products that offer coverage for pre-existing condi-tions," says Goyal.
"European countries have public healthcare systems, but tourists may still face out-of-pocket expenses," says Alok Agarwal, managing director and chief executive officer (CEO), Zurich Kotak General Insurance.

Baggage and personal effects Baggage cover should reflect the value and nature of belongings. A standard baggage cover of \$500-1,000 is typically sufficient. "If you plan to carry high-value items such as a laptop, DSLR camera, or smartphone, choose a plan that offers a 'gadget cover' with coverage of \$1,000-2,000," says Goyal.

Adventure sports
Standard policies usually
exclude such activities, but
many insurers offer optional
add-on covers for activities like add-on covers for activities like scuba diving, bungee jumping, and so on. "Such activities must be undertaken under trained supervision and not in a professional capacity," says Priya Desh mukh, head – health products, operations and services, ICICI Lombard

Loss of passport cover

Loss of passport cover
Loss of passport can create major
issues abroad. "Loss of passport
cover reimburses the insured for
the expenses incurred in obtaining a duplicate or remporary
passport, including the cost of
travel to the nearest embassy,
application fees, and other
associated charnee," sow Aseassociated charges," says Aas-hish Sethi, head – agency, health distribution and travel channel, Bajaj Allianz

General Insurance. Meet Kapadia, head of travel insurance, Policybazaar, says most policies offer a fixed sum for this, usually between \$300 and \$600.

Apt coverage for various destinations

Destination	Minimum recommended sum insured (\$)
Schengen*	250,000
USA & Canada	250,000-500,000 (1 million for senior citizens)
UK, Australia and New Zealand	2,50,000
Asia (Thailand, Singapore, UAE)	2,50,000
*30.000 euros mandatory	Source: Policybazaar

AskDISHA 2.0: Book, cancel, track train and get refunds with IRCTC's AI app Key features of AskDISHA 2.0 ■ Voice and text chat: Available in several Indian languages ■ Login via OTP for quick access

Booking train tickets online could be a tedio task. To make the proce easier, Indian Railways easier, Indian Railways has come up with an artificial intelligence (AI) personal assistant that can book and cancel tickets, and even check refunds for you.

Read full report here: mybs.in/2en94aX

■ TDR filing assistance: Track status of ticket deposit receipt

To book a ticket:

■ Type or speak "book ticket" ■ Share travel details

and authenticate using OTP

Make payment and get e-tickets Select from available tr

To cancel a ticket:
Say "cancel ticket"
Authenticate and select PNR
Confirm cancellation and wait

for SMS/email confirmation

To track refund:
■ Ask "refund status"
■ Enter PNR or transaction ID
■ Get real-time updates

COMPILED BY AMIT KUMAR

TENDER CARE -

Advertorial

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY REPORTS PROFITS AFTER YEARS

REPORTS PROFITS AFTER YEARS
United India Insurance Company Ltd has made a remarkable
comeback, securing a profit of ₹154 crores in FY 2024-25
after several years. With an expansive network of branches and
agents, UIICL boasts a strong presence across India, offering
an extensive portfolio of insurance solutions, including health,
motor, property, and marine coverage. Backet by 87 years of
legacy, the company has reinforced its market standing through
prudent underwriting and strategic loss control measures,
reclaiming its position as a profitable force in the industry.
Kev Financial Achievements (Gross Direct Premium Income

prudent underwriting and strategic loss control measures, reclaiming its position as a proflable force in the industry. Key Financial Achievements:Gross Direct Premium Income (GDPI): 820,072 crores. Profit After Tax (PAT): 154 crores—an impressive turnaround from the €804 crore loss in FY 2023-24. Combined Ratic: Improves to 121.67%, by 4%. Expanding Customer Base: Now surpassing 2 crore policyholders Mr Bhupesh Sushi Rahul, CMD of UIIC said 11th is with immense pride that I announce United India Insurance Company Ltd.'s emarkable achievements in FY 2024-25—sungassing 220,000 crores while extending risk protection to over 2 crore customers. This milestone reflects our unwavering comminment to excellence, financial strength, and customer-centric innovation, reinforcing our position as a leading force in the industry. Our relentless focus on technological innovation, customer satisfaction, and risk management has enabled us to adapt to evolving industry dynamics and emerge stronger. In alignment with IRDAI's vision of Insurance for All by 2047, we are proud to unveil a diverse range of cutting-edge insurance solutions designed to meet the changing needs of our customers while enhancing market competitiveness. These include Sampurna Suraksha Blina, a comprehensive personal accident policy providing holistic financial security. Param Mirta Suraksha Policy, a parametric insurance product delivering structured risk coverage; Pay 45 You Drive, a usage-based plan tailored for customers with limited vehicle usage: United Cyber Kawach customers with limited vehicle usage; United Cyber Kavach Policy, an innovative shield against cyber threats; and United Value Griha Raksha Policy, a home protection plan securing both property and belongings. By prioritizing customer-centric strategies, seamless claims processing, and enhanced service standards, we continue to reinforce our commitment to delivering financial security, strengthening customer trust, and redefining industry leadership in the ever-evolving insurance landscape". customers with limited vehicle usage; United Cyber Kavacl

SHRI MANOHAR LAL LAYS FOUNDATION STONE FOR 1000-SEATER AUDITORIUM IN UP

AUDITORIUM IN OP

Shri Manohar Lal, Horble Minister of Power & Minister of Housing and Urban Affairs, laid the foundation stone for a state-of-the-art 1000-seater Community Auditorium, in Siddharth Nagar, Utlar Pradesh. The Auditorium is being jointly funded by REC, PFC and NTPC. REC Limited, a Maharaha CPSU and a leading NBFC under the Ministry of Power, has agreed to support ₹7.02 Crore under its Corporate Social Responsibility (CSR) initiative. The foundation stone-laying ceremony was attended by the Executive Director (CSR) of REC Limited and other senior officials, alongside enthusiastic local residents who expressed optimism about the project's potential to energize the district's cultural landscape.



PNB LAUNCHED ITS 1ST MONTHLY AGRICULTURE OUTREACH PROGRAMME TO BOOST RURAL FINANCING



HON'BLE PM LAYS THE FOUNDATION STONE OF NTPC NABINAGAR STPP, STAGE-II (3X800 MW)



opmental projects worth Rs 48,520 Crores in the presence of Hon'ble Governor of Bihar Shri Arif Mohammed Khan, Hon'ble Hon ble Governor of Bilars Shri Mari Mohammed Khan, Hon'ble Chief Minister of Bilars Shri Nitts Kumar, Hon'ble Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Shri Jilan Ram Manjhi among other dignitaries. This project is based on the latest state-of-the-art Ultra-Supercritical Technology with the highest power generation efficiency. To reaffirm NTPC's water stewardship, a Dry Bottom ash handing system and air-cooled condenser is installed in Nabinagar Stage-I units; this will significantly reduce freshwater consumption for power generation.

LIC OF INDIA RECEIVES THE ISO 22301:2019 BUSINESS CONTINUITY

ndia has been awarded the ISO LIC of India has been awarded the ISO 22301:2019 Business Continuity Management System (BCMS) certification from the British Standards Institution (BSI) reaffirming that the Insurer's Operational Resilience, Business Continuity Planning and Risk Management capabilities are consistent with global best practices. The ISO 22301:2019 BCMS accreditation recognises the Insurer's ability to maintain robust business continuity practices, ensure uninterrupted services year during unforsees of discriptions and efficiently manages.



even during unforeseen disruptions and effectively manage

risk. ISO 2301:2019 is an international benchmark for business continuity management, focusing on minimizing operational disruptions and ensuring swift recovery in times of crisis. Achieving this certification enhances LIC's reputation as a resilient organisation that is well-prepared to ensure continuity of services even in the face of unexpected challenges that may arise and serve customers seamlessly.

Punjab State Power Corporation Limited

Check refunds instantly

Frequent traveller info is saved.

Quick retry for failed payments
Retry within 15 minutes

by PNR

Press Tender Fan, No. 619P-2EMPW-12933 dated 16.05.2025

Dy.Chief Engineeri Headquarter (Procurement Cell-2) GGSSTP, Rupnagar invites Open
Press Tender for Repair Califoration and Stamping of Standard weights from Weights &
measures departments of Punjab Government Cell-2)

For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://pspcl.in from 17.05.2025 from 04.00 PM onwards.

endum, if any will be published online at https://p:

adani

ADANI ELECTRICITY MUMBAI LIMITED Registered Office: Adani Corporate H am, Near Vaishno Devi Circle, S. G. Hig (hodiyar, Ahmedabad 382421-Gujarat,

Invitation for Supply of Power

Adani Electricity Mumbai Limited (AEML) invites bids for selection of seller/s for supply of wind power on short-te basis through e-tendering and e-reverse auction process. The bid documents for participation can be downloaded through DEEP e-portal of www.mstcecommerce.com

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Direct/LDF) dated May 13, 2025, filed with National Stock bickhange for all full mider (VEST) in Stock bickhanges and the Securities and the Exclurities and the Exclusion and Exclusion and



DOLLEX AGROTECH LIMITED

Corporate Identity Number: L15311MP2013PLC030914

OUR PROMOTERS: MR. MEHMOOD KHAN AND MRS. MUNNI KHAN

(THE ISSUE)

ISSUE OF UP TO 1,49,80,800 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF F110- FECH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF 743 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF 7.23 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGBRECATING UP TO 7.4,943.66LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE ARTHO OF A PIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON MAY 14, 2025 (THE "ISSUE").

NOTICE TO ELLGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY CORRIGENDUM CUM APPLICATION TO LETTER OF OFFER DATED 13TH MAY, 2025

ne engine century snarrenomers or me company. The Engine Equity Shartenbolders are requested to presse not the following:

It is is in dimm the Engine Shartenbores of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Thursday, May 21, 2025 and was scheduled Nedhesday, June 04, 2025 has now extended from Wednesday, June 04, 2025 to tesday, June 10, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on 2024 of voto to provide an opportunity to shartenbolders to exercise their rights in the Rights Issue.

**Control Provided Shart Sh

on acticum payable on application) is Tuesday, June 10, 2025 Equity Shareholders of the cor ke note of the issue Closure Date as Tuesday, June 10, 2025. REVISED ISSUE SCHEDILE

Issue Closing Date	Tuesday, June 10, 2025
Finalising the Basis of Allotment with Designated Stock exchange	Wednesday, June 11, 2025
Date of Allotment	Wednesday, June 11,2025
Date of Credit (on or About)	Thursday, June 12,2025
Date of Listing (on or About)	Thursday, June 12,2025

sized uplaning Latel).

"Timestors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Dur Company, and/or the Registrar to the Issue will not be Rable for any loss on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.

"Eligible Capily Semiothesia are requested to ensure that removation through of "market transfer is completed in such a manner that the Rights Eribliements are credited to the element account of the Renounces (on or prior to the Issue Closing Date.

This addedund is tall the available on the respective websiles of our Company at www.dollex.in ; the Registrar to the Issue at www.skylinerta.com; and the Stock Exchanges at

www.iseumad.com.
Accordingly, there is no change in the LDF dated May 13, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date. The change in Issue closing date resultant investors and incident time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.


NEWSTORS MAY LESS NOTE THE LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM.

Place: Index Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue guity Shareson an injustic and based and subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue guity Shareson an injustic and based and sale site and Letter of Offer dated May 13, 2023 with National Stock Exchange of India Limited and is submitted to Securities and Exchange Board of India for information and disseminations, where the Equity Shares are listed it. a MSE it www.scolibic.cm. Our Company at www.colibic.in and the Registrant of the Issue at www.scolibic.in and the Registrant for the Issue at which issue a transport of the Issue at which issue at the Issue at which is a which issue at which is the Issue at which issue at which issue at which issue at which is the Issue at which is















सवाल जवाब

सिर्फ घरेलू निवेश से महंगा नहीं हुआ भारत का मूल्यांकन

मॉर्गन स्टैनली इंडिया में प्रबंध निवेशक एवं इंडिया इंक्विटी स्ट्रैटिजिस्ट के प्रमुख रिधम देसाई का कहना है कि घरेलू निवेश में तेजी आने से बहुत पहले से ही घरेलू बाजार उभरते बाजारों (ईएम) की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करते रहे हैं। उन्होंने मुंबई में मॉर्गन स्टैनली के सालाना इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम से पहले समी मोडक और सुंदर सेतुरामन से कहा कि लगातार एफपीआई प्रवाह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत एक मजबूत और ऊंचे रिटर्न वाले बाजार के रूप में अपना आकर्षण बनाए रख पाता है या नहीं। मुख्य अंशः

भौल के जिनले स्वरों से भारतीय श्रेयर बाजार को तेजी से सुधरने में कैसे मदद मिली?

बाजार में सुधार के लिए तीन मुख्य कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है। पहला आरबीआई ने फरवरी 2025 में अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया, जिससे सरकार के सख्त वित्तीय समेकन की भरपाई हो गई। सख्त वित्तीय समेकन ने अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया था। दूसरा, विशेष रूप से बड़े शेयर आकर्षक कीमतों पर आ गए, जिससे फरवरी और मार्च में महत्त्वपूर्ण घरेलू खरीदारी शुरू हो गई, भले ही विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की।तीसरा, डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ जैसे अमेरिकी नीतिगत बदलावों से हिल चुकी दुनिया में भारत की मजबूती ने उसे दूसरों से अलग

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निवेश प्रवाह नरम

क्यों बना हुआ है ? भारत का बाजार अब घरेलू निवेशकों द्वारा संचालित है। यह ऐसा रुझान है जो वर्ष 2015 में शुरू हुआ और दशकों तक चल सकता है। संस्थाओं और रिटेल सहित घरेलू निवेशक, नियमित

खरीदार रहे हैं। इससे विदेशी निवेशकों के लिए खरीदारी की बहुत कम गुंजाइश बचती है, जब तक कि वे कुछ ऊपरी कीमतों पर दांव न लगाएं। जहां अन्य उभरते बाजार सस्ते मूल्यांकन की पेशकश कर सकते हैं, वहीं भारत का प्रीमियम पूंजी पर बेहतर रिटर्न, कम अस्थिर आय वृद्धि के लिहाज से उचित है। लगातार एफपीआई प्रवाह कॉरपोरेट निर्गमों में तेजी और भारत के एक मजबूत और ऊंचे रिटर्न वाले बाजार के रूप में आकर्षण बरकरार रखने की क्षमता पर कुछ का मानना है कि भारत का ऊंचा मूल्यांकन घरेलू निवेश की वजह से है। आपकी इस पर क्या

राय है? सिर्फ घरेलू निवेश से भारत का मूल्यांकन महंगा हो सकता है. यह सही नहीं है। भारत ने 2002-2003 से उभरते बाजारों के मुकाबले प्रीमियम प्र कारोबार किया है। यह 2015 में शरू हुई घरेलू प्रवाह में तेजी से बहुत पहले की बात है। यह प्रीमियम भारतीय कंपनियों द्वारा बैलेंस शीट की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने और चीन जैस समकक्षों की तुलना मुं पूंजी पर लगातार ऊंचे रिटर्न के

अमेरिकी व्यापार अनिश्चितता निफ्टी कंपनियों की ईपीएस को कैसे प्रभावित करती है?

घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 2 प्रतिशत है। अमेरिका के साथ एक त्वरित व्यापार समझौता होने की संभावना है, जिससे प्रत्यक्ष जोखिम सीमित होगा। हालांकि, अमेरिकी व्यापार नीतियों के कारण वैश्विक विकास धीमा होने से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि इसके जीडीपी का 20 प्रतिशत वैश्विक जुड़ाव पर निर्भर करता है। हालांकि हम अमेरिकी मंदी की आशंका नहीं जता रहे हैं, लेकिन वैश्विक वृद्धि मे गिरावट आने की आशंका है। जिससे हमें भारत की आय के अनुमानों को पहले के अधिक आशावादी अनुमानों की तुलना में घटाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

किन क्षेत्रों को आय में बड़ी कटौती का सामना करना पड़ेगा और कौन से मजबूत बने रहेंगे? फाइनैशियल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और औद्योगिक वस्तुओं जैसे घरेलू-केंद्रित क्षेत्रों के अधिक मजबूत बने रहने की उम्मीद् है। इसके विपरीत, सॉफ्टवेयर सेवाओं, ऊर्जा और सामग्री (सीमेंट को छोड़कर, जो एक घरेलू क्षेत्र है) जैसे क्षेत्रों को आय में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अगले 12 महीनों में हमें 14-15 फीसदी की आय वृद्धि की उम्मीद है। पोर्टफोलियो को लेकर हमारा नजरिया फाइनैं-शियल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और इंडस्ट्रियल में ओवरवेट, एनर्जी और मैटेरियल पर 'अंड-रवेट' और सॉफ्वेयर सेवाओं पर

शेयर बाजार पर विदेशी ब्रोकर सतके

कमजोर वैश्विक वृहद हालात के कारण अल्पाविध के लिहाज से बाजारों पर विश्लेषकों का रुख सतर्क

पुनीत वाधवा नई दिल्ली, 2 जून

 देशी बोकरेज फर्में भारतीय देशी ब्रोकरंज फर्मे भारतीय इक्विटी बाजारों की आगामी राह को लेकर सतर्क बनी हुई हैं। हालांकि नोमूरा के विश्लेषकों ने अपने मार्च 2026 के निपटी लक्ष्य को पहले के 24,970 के स्तर से संशोधित कर 26,140 कर दिया है, लेकिन मौजूदा स्तरों से यह मामूली 6 प्रतिशत की वृद्धि है। दूसरी ओर, बोफा सिक्योरिटीज़ ने अपने वर्ष के अंत के निफ्टी लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। नोमूरा का कहना है कि निफ्टी 20.5 गुना

एक वर्षीय आगामी आय पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके कारोबारी दायरे की ऊपरी सीमा के नजदीक है। नोमूरा में भारत के लिए इक्विटी शोध प्रमुख

प्तं प्रबंध निदेशक साथन मुखर्जी ने अमलान ज्योति दास के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट में लिखा है, 'हालांकि, अर्निंग योल्ड और बॉन्ड यील्ड के बीच -1.4 प्रतिशत का अनुकूल अंतर (जो पिछले चार वर्षों में प्रचलित सीमा के उच्च स्तर पर है) आरामदायक है। वित्त वर्ष 2027 की आय के 21 गुना पीई के आधार पर हमने अपना मार्च 2026 का निफ्टी लक्ष्य 26,140 तय

न्या है। बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषक भी



नोमुरा के विश्लेषकों ने अपने मार्च 2026 के निफ्टी लक्ष्य में मामूली 6 प्रतिशत की वृद्धि की है मगर बोफा सिक्योरिटीज ने कोई बदलाव नहीं किया है

कमजोर वैश्विक वृहद हालात की वजह से अ्ल्पावधि के लिहाज से बाजारों पर सतर्क

बन हुए है। बोफा सिक्योरिटीज में इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजिस्ट अमीश शाह ने एक रिपोर्ट में कहा है, 'ताजा तेजी को देखते हुए, हमें निफ्टी के लिए वर्ष के अंत के लक्ष्य 25,000 में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अल्पावधि में, धीरे-धीरे, हमें सात उभरते जोखिम दिखते . जो हमें निफ्टी / लार्जकैप पर सतर्क करते

रखे हुए हैं।'बोफा सिक्योरिटीज ने कहा कि बाजार अब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिससे भारत की ज्यादा नहस्य दे रहे हैं, जिससे नारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करने का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी बन गया है। हालांकि, चल रहे व्यापार युद्ध के बीच किसी भी संभावित वैश्विक मंदी का अभी असर नहीं

खा है। बोफा का कहना है कि घरेलू और विदेशी, दोनों के संबंध में इक्विटी बाजारों के लिए निवेश प्रवाह जोखिमपूर्ण बना हुआ है।

दीआईआई पवाह आने वाले महीनों में अस्थिर रह सकता है और कमजोर भी हो सकता है। आंकड़े से पता चलता है कि घरेलू प्रवाह अक्टूबर 2024 में 8.6 अरब डॉलर 2025 में नरम पड़कर 6.1 अरब डॉलर

एक रागनीति के रूप में, नोम्पा वैश्वक अनिश्चितताओं को देखते हुए निर्यातकों की तुलना में घरेलू-केंद्रित क्षेत्रों को पसंद करता है और निवेश थीमों की तुलना में खपत पर जार देता है। नोम्पा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेश चक्र में देरी होने की आशंका है।

भारानम् छ। फार्मास्युटिकल्स/केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जैसे सप्लाई-चेन रीलोकेशन थीम उनके पसंदीदा क्षेत्र हैं। फाइनैशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटो, डिस्क्रेशनरी, तेल और गैस, पावर, टेलीकॉम, इंटरनेट, रियल एस्टेट और चुनिंदा घरेलू हेल्थकेयर क्षेत्र उनके कुछ अन्य प्रमुख दांव हैं। मुखर्जी ने लिखा है, 'इंडस्ट्रियल में, हम कंपनियों पर सकारात्मक हैं जो पावर सेक्टर में निवेश पर जोर दे रही हैं। हम निर्यात

क्षेत्रों और पंजीगत थीमों पर सतर्क हैं। इनमें

आईटी सेवाएं, इंडस्ट्रियल, सीमेंट और धातुएं

एजिस वोपैक पहले दिन 3 फीसदी चढा

मुंबई, 2 जून

एजिस वोपैक टर्मिनल्स का शेयर सोमवार को अपने पहले कारोबारी दिन के दौरान आईपीओ कीमत से 3 प्रतिशत ऊपर पहुंच गया। इस शेयर ने 220 रुपये के स्तर से शुरुआत की और 242 रुपये के ऊंचे स्तर को छुआ और आखिर में 235 रुपये के निर्गम भाव की तुलना में 7 फीसदी बढकर 242 रुपये पर बंद हुआ। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 223-235 रुपये प्रति शेयर था।

श्लॉस बेंगलूरु का शेयर पहले दिन गिरा

श्लॉस बेंगलरु के शेयर ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत की और यह अपने निर्गम भाव से फिसल गया। शेयर ने 405 रुपये से 439 रुपये के बीच कारोबार किया और आखिर में 434 रुपये पर बंद हुआ, जो 435 रुपये के निर्गम मूल्य से 1 रुपये कम है। श्लॉस के आईपीओ 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी ने ऋण चुकाने के लिए आईपीओ से 2,500 करोड़ रुपये

सेंसेक्स में 77, निफ्टी में 34 अंक की गिरावट

वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार में भी सोमवार को गिरावट आई और बीएसई का सेंसेक्स 77 अंक् टूट गया। वैश्विक व्यापार को लेकर ताजा चिंता से दुनिया के अन्य बाजारों में गिरावट का रुख रहा जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। इसके अलावा, रूस-युक्रेन युद्ध, कच्चे तेल के दाम में तेज वृद्धि और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स एक समय 796.75 अंक तक लुद्दक गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार आया और अंत में यह 77.26 अंक

के नुकसान के साथ बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 34.10 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,716,60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 224.55 जरान, एक समय यह 224.55 अंक टूट गया था। लेमन मार्केट्स डेस्क के विश्लेषक सतीश चं अलूरी ने कहा, 'जून में अस्थिर शुरुआत के साथ मानक सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हए।' मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।' सेंसेंक्स में शामिल कंपनियों में टेक

विदेशी लिवाली से रुपये में तेजी

सोमवार को विदेशी लिवाली के दम पर डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती आई। डीलरों के मुताबिक डॉलर में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के 85.58 प्रति डॉलर के मकाबले आज रुपया 20 पैसा चढ़कर 85.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। चालू वित्त वर्ष में अब तक रुपया में 0.1 फीसदी और चालू कैलेंडर वर्ष में अब तक 0.27 फीसदी की तेजी आई है। एक सरकारी बैंक के डीलर ने कहा कि कुछ निवेश हुआ और डॉलर लुढ़क गया। उन्होंने कहा डॉलर लुढ़क गया। उन्होंने कहा कि जब तक डॉलर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, मौजूदा स्तर में ही घट-बढ़ देखेंगे। बीएस

महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक. इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक नुकसान में रहीं। भाषा

भारत डायनेमिक्स: ऑर्डर् पूरा करने पर देना होगा ध्यान

राम प्रसाद साहू

रक्षा क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स (बीडीएल) ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी ति में मिलाजुला प्रदर्शन किया है। जहां उसका राजस्व एक साल पहले के उत्तर्भ राजस्य एक साल पहले के मुकाबले दोगुना हो गया, वहीं मुनाफा औसत से कम रहा। कंपनी के पास ऑर्डर और बैकलॉंग मजबूत हैं जिससे आगे चलकर मजबूत राजस्व की संभावना है।

ब्रोकरों का मानना है कि कंपनी के लिए कार्यान्वयन की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गाइडेड मिसाइल और संबंधित उपकरण बनाती है। विश्लेषक मध्यावधि से दीर्घावधि नजरिये से इस शेयर पर सकारात्मक नजारव सइस शवर पर सकारात्मक हैं। यह शेयर महज तीन महीने में 93 फीसदी तक चढ़ा है। हालांकि अल्पावधि में तेजी सीमित रह सकती है, क्योंकि यह शेयर अपने 34 गुना के पांच वर्षीय औसत के मुकाबले 54 गुना के आसपास कारोबार कर रहा है।

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 108 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 112 प्रतिशत बढ़कर 1,770 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर राजस्व में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह लगभग 3,345 करोड़ रुपये रहा। राजस्व के मोर्चे पर वृद्धि को बेहतर क्रियान्वयन से मदद मिली।

ष्य में राजस्व वृद्धि ऑर्डर और बैकलॉग के साथ उन्हें पूरा करने पर निर्भर करेगी। कंपनी ने त्त वर्ष 2025 में 6,660 करोड़ रुपये के ऑर्डर लिए। इनमें मध्यम



माह में 93 फीसदी की तेजी आई

रूंज की सरफेस-टु-सरफेस एयर मिसाइलों (एमआरएसएएम) से संबंधित सौदे ज्यादा थे। इसके संबाधत साद ज्यादा था इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलां हथियारों की आपूर्ति से भी ऑर्डर बुक बढ़ी। ऑर्डर बुक और बैकलॉग वित्त वर्ष 2025 की बिक्री का सात गुना है। इसके अलावा, लगभग 20,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्रस्ताव भी तीन साल के नज्िए से मज्बूत है। इनमें अस्त्र एमके 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एमआरएसएएम और क्विक रिएक्शन एसएएम (क्यूआरएसएएम) का बड़ा ऑर्डर शामिल है।

शाामल ह। दमदार ऑर्डर बुक और बैकलॉग के बावजूद कंपनी आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों की वजह से कुछ ऑर्डरों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी। उसे दो-तीन साल से आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑर्डरों का सामना करना पड़ रहा हो आडर को पूरा करने में विलंब मुख्य रूप से युद्ध प्रभावित देशों रूस और इजरायल की वजह से भी हुआ जिनके कुछ पुजों पर उसकी निर्भरता है। ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का मानना है अब ये चनौतियां धीरे धीरे घट रही हैं और वित्त वर्ष 2026 में कंपनी 30 प्रतिशृत की राजस्व वृद्धि

दर्ज कर सकती है।

फॉर्म संख्या सीएए-2 (कंपनी अधिनियम, 2013 की पार 20(3) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 6 और 7 के अनुसारा (सम्प्रतीत: व्यावसा और एकीकरण) नियम, 2016] नैशनल कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, अस्मदाबाद हिंदीमंत्र चेंब, और ने अहमदाबाद में सीए (सीएए) अप्टाप्यत्म, 2023 (कंपनी सीवियन 2013 की यार 20 से 232 के अंतर्गत)

इस मामले में: मासिवस ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड और सोनेपर इंडिया प्राइ निमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच विलय की योजना

... इ**स मामले में:** कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २३२ तथा अन्य लागू प्रावधान, कंप (समझौता, व्यवस्थाऔर एकीकरण) नियम, २०१६ के साथ पठित।

मासियस ऑटोमेशन एंड इंस्ट्र्मेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफरर कंपनी"), जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है: बी- 30 जीआईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट सेक्टर-25, गांधीनगर, गुजरात, भारत, 382042

गांधीनगर, गुजरात, ११६०, २०००-सेनेपर इंडिया प्रावदें तिनिदेश (दोसको कंपनी), जिसका प्रतीकृत कार्यास्य इस पढे पर है: 597, इवी प्रतीक, भोककारी कार्यास्य, भोकजी कार्यास्य, नई दिल्ली, दिल्ली, ११००६६

हस्तान्तरण्याता वर्षणा/अध्यक्त करणां क असुरातात राज्यत को कार्यत का किया ने का पूर्वणां के प्रितान है।

कियाणां वर्षिक किया जाता है के अस्तर कार्यत कार्यत करणां कर करणां करण

					н
कंपनी	वैठक	तारीख	समय	कार्यक्रम का स्थान	ı
मासिबस ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइयेट लिमिटेड	असुरक्षित लेनदार	05 जुलाई, 2025	10.30 पूर्वीह	बी- ३० जीआईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट सेक्टर-२५,गांधीनगर, गुजरात, भारत, ३८२०४२.	

आध्यद (सामारक)
महम्मी अधिनियाम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत योजना और विवरण की प्रतियों आयेदक फर्मी,शहसीतरक कंपनी के पंत्रीवृत्त कार्यालय से बैठक की तिवि तक सभी कार्य दिख्ता (शनिवार वितर और सार्वाजित अरकारों को प्रोज्ञक प्रयू सहुत 10 को से प्रीयदार शक्ये की बीत निहुत्तक हाइ की जा मकती हैं, साथ ही इन्हें आयेदक कंपनी के असूर्यक्षित ऋणदाताओं को बैठक की सूचना के साथ व्यक्तितर कर भी भी भा आता है।

शाब व्याराज्य रूप मा भागा जाता हा बैठकों में उपस्थित होने और मददान करने के लिए पात्र व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉवसी द्वार मतदान कर सकते हैं, बतरों कि निर्धारित प्रपत्न में ऑक्सी बैठक के समय से 48 घंटे पूर्व बी-30 इंक्वेदानिवस एस्टेर सेक्टर-25, गांधीनगर, गुजरात, भारत, 382042 में ट्रांसफरर कंपनी के पंजीकृत कार्यात्वय मैं माम करा दी जाए। कावाराच न जना करा था जाटा प्रॉक्सी का फॉर्म ट्रांसफरर कंपनी के पंजीकत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है

अस्ताता के अन्य संपन्न के प्राप्त कर का क्ष्मिय के अध्यान के अध्यान के अध्यान के अध्यान के अधि मानिया में नियम मानिया में मानिया में मानिया म

Sd/-श्री. कुलदीप कुमार करीर, पूर्व सदस्य एससीएस अध्यक्ष को असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए नियुक्त किया गया

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer(LICP) dated May 13, 2005. filed with National Strike Exchange of India CREEN!



DOLLEX AGROTECH LIMITED

on tasker of bort company is vess decoporation at extendit, relative per annual control of the company of the company of the company was changed in 1 of the company of the company was changed in 1 of the company of t

OUR PROMOTERS: MR. MEHMOOD KHAN AND MRS. MUNNI KHAN (THEISSUE)

ISSUE OF UP TO 1,49,80,800 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 710 - EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF 733 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF 7 23 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO 7 4,943,561,044% ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREROLDERS OF OUR COMPANY IN THE AUTHOR OF SHORTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARES HELD BY THE EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARES HELD BY THE EXPENDING THE

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO ELLGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY – CORRIGENDUM CUM APPLICATION TO LETTER OF OFFER DATED 13TH MAY, 2025

The notice should be read in conjunction with the letter of ofter dated May 13, 2025, filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the LDF and CAF that have be the filed being by Startholders of the Company. The Eligible Equity Startholders are requested to place note the following:
This is to inform the Engine Startholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Thursday, May 21, 2025 and was scheduled the Wednesday, June 04, 2025 to Buseday, June 04, 2025 to Buseday (Buseday 10, 2025 to Buseday 10, 2025 t

provide an apportunity to snarrownests to exercise time rights - it are rights assure.

If you the stat date of submission of the Utility filed in CAF (along with the amount payable on application) is Tuesday, June 10, 2025 Equity Shareholders of the cit opply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Tuesday, June 10, 2025.

BEVICEN INSIET EXPLAINED.

NEVISED ISSUE SCHEDULE		
Issue Opening Date	Wednesday, May 21, 2025	
Issue Closing Date	Tuesday, June 10, 2025	
Finalising the Basis of Allotment with Designated Stock exchange	Wednesday, June 11, 2025	
Date of Allotment	Wednesday, June 11,2025	
Date of Credit (on or About)	Thursday, June 12,2025	
Date of Listing (on or About)	Thursday, June 12,2025	

ealing Lates, it is a marked to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for on account of non-submission of Application Forms or on before the Issue Closing Date.
Le Equity Shareholders are requested to ensure that remunication through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the cocount of the Remonneet join or prior to the Issue Closing Date.

no change in the LOF dated May 13, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant

change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM

Siddh Barthya
Place: Indoor
Pl

सवाल जवाब

सिर्फ घरेलू निवेश से महंगा नहीं हुआ भारत का मूल्यांकन

मॉर्गन स्टैनली इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजिस्ट के प्रमुख रिधम देसाई का कहना है कि घरेलू निवेश में तेजी आने से बहुत पहले से ही घरेलू बाजार उभरते बाजारों (ईएम) की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करते रहे हैं। उन्होंने मुंबई में मॉर्गन स्टैनली के सालाना इंडिया इन्वेस्टमेंट फोरम से पहले समी मोडक और सुंदर सेतुरामन से कहा कि लगातार एफपीआई प्रवाह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत एक मजबूत और ऊंचे रिटर्न वाले बाजार के रूप में अपना आकर्षण बनाए रख पाता है या नहीं। मुख्य अंशः

भौल के जिनले स्वरों से भारतीय श्रेयर बाजार को तेजी से सुधरने में कैसे मदद मिली?

बाजार में सुधार के लिए तीन मुख्य कारकों को जिम्मेदार माना जा सकता है पहला आरबीआई ने फरवरी 2025 में अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया, जिससे सरकार के सख्त वित्तीय समेकन की भरपाई हो गई। सरका विनीय समेकन ने अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया था। दूसरा, विशेष रूप से बड़े शेयर आकर्षक कीमतों पर आ गए, जिससे फरवरी और मार्च में महत्त्वपूर्ण घरेलू खरीदारी शुरू हो गई, भले ही विदेशी निवेशकों ने

बिकवाली की।तीसरा, डॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ जैसे अमेरिकी नीतिगत बदलावों से हिल चुकी दुनिया में भारत की मजबूती ने उसे दूसरों से अलग

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निवेश प्रवाह नरम

क्यों बना हुआ है ? भारत का बाजार अब घरेलू निवेशकों द्वारा संचालित है। यह ऐसा रुझान है जो वर्ष 2015 में शुरू हुआ और दशकों तक चल सकता है। संस्थाओं और रिटेल सहित घरेलू निवेशक, नियमित

खरीदार रहे हैं। इससे विदेशी निवेशकों के लिए खरीदारी की बहुत कम गुंजाइश बचती है, जब तक कि वे कुछ ऊपरी कीमतों पर दांव न लगाएं। जहां अन्य उभरते बाजार सस्ते मूल्यांकन की पेशकश कर सकते हैं, वहीं भारत का प्रीमियम पूंजी पर बेहतर रिटर्न, कम अस्थिर आय वृद्धि के लिहाज से उचित है। लगातार एफपीआई प्रवाह कॉरपोरेट निर्गमों में तेजी और भारत के एक मजबूत और ऊंचे रिटर्न वाले बाजार के रूप में आकर्षण बरकरार रखने की क्षमता पर कुछ का मानना है कि भारत का ऊंचा मूल्यांकन घरेलू निवेश की वजह से है। आपकी इस पर क्या

राय है? सिर्फ घरेलु निवेश से भारत का मुल्यांकन महंगा हो सकता है. यह सही नहीं है। भारत ने 2002-2003 से उभरते बाजारों के मुकाबले प्रीमियम प्र कारोबार किया है। यह 2015 में शरू हुई घरेलू प्रवाह में तेजी से बहुत पहले की बात है। यह प्रीमियम भारतीय कंपनियों द्वारा बैलेंस शीट की मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने और चीन जैस समकक्षों की तुलना मुं पूंजी पर लगातार ऊंचे रिटर्न के

अमेरिकी व्यापार अनिश्चितता निफ्टी कंपनियों की ईपीएस को कैसे प्रभावित करती है?

अमेरिका-भारत व्यापार भारत के सकल

प्रतिशत है। अमेरिका के साथ एक त्वरित व्यापार समझौता होने की संभावना है, जिससे प्रत्यक्ष जोखिम सीमित होगा। हालांकि, अमेरिकी व्यापार नीतियों के कारण वैश्विक विकास धीमा होने से भारत अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि इसके जीडीपी का 20 प्रतिशत वैश्विक जडाव पर निर्भर करता है। हालांकि हम अमेरिकी मंदी की आशंका नहीं जता रहे हैं, लेकिन वैश्विक वृद्धि मे गिरावट आने की आशंका है। जिससे हमें भारत की आय के अनुमानों को पहले के अधिक आशावादी अनुमानों की तुलना में घटाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।

किन क्षेत्रों को आय में बडी कटौती का सामना करना पड़ेगा और कौन से मजबूत बने रहेंगे? फाइनैंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और औद्योगिक वस्तुओं जैसे घरेलू-केंद्रित क्षेत्रों के अधिक मजबूत बने रहने की उम्मीद है। इसके विपरीत, सॉफ्टवेयर सेवाओं, ऊर्जा और सामग्री (सीमेंट को छोड़कर, जो एक घरेलू क्षेत्र है) जैसे क्षेत्रों को आय में कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अगले 12 महीनों में हमें 14-15 फीसदी की आय वृद्धि की उम्मीद है। पोर्टफोलियो को लेकर हमारा नजरिया फाइनैं-शियल, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और इंडस्ट्रियल में ओवरवेट, एनर्जी और मैटेरियल पर 'अंड-

रवेट' और सॉफ्वेयर सेवाओं पर

सेंसेक्स में 77, निफ्टी में 34 अंक की गिरावट

मुंबई, 2 जून

एजिस वोपैक

पहले दिन 3

फीसदी चढा

एजिस वोपैक टर्मिनल्स का शेयर सोमवार को अपने पहले कारोबारी दिन के दौरान आईपीओ कीमत से 3 प्रतिशत ऊपर पहुंच गया। इस शेयर ने 220 रुपये के स्तर से शुरुआत की और 242 रुपये के ऊंचे स्तर को छुआ और आखिर में 235 रुपये के निर्गम भाव की तुलना में 7 फीसदी बढकर 242 रुपये पर बंद हुआ। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 223-235 रुपये प्रति शेयर था।

श्लॉस बेंगलूरु का शेयर पहले दिन गिरा

श्लॉस बेंगलुरु के शेयर ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत की और यह अपने निर्गम भाव से फिसल गया। शेयर ने 405 रुपये से 439 रुपये के बीच कारोबार किया और आखिर में 434 रुपये पर बंद हुआ, जो 435 रुपये के निर्गम मूल्य से 1 रुपये कम है। श्लॉस के आईपीओ 4.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी ने ऋण चुकाने के लिए आईपीओ से 2,500 करोड़ रुपये

वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजार में भी सोमवार को गिरावट आई और बीएसई का सेंसेक्स 77 अंक् टूट गया। वैश्विक व्यापार को लेकर ताजा चिंता से दुनिया के अन्य बाजारों में गिरावट का रुख रहा जिसका असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। इसके अलावा, रूस-युक्रेन युद्ध, कच्चे तेल के दाम में तेज वृद्धि और विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स एक समय 796.75 अंक तक लुद्दक गया था। हालांकि, बाद में इसमें कुछ सुधार आया और अंत में यह 77.26 अंक

के नुकसान के साथ बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 34.10 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,716.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 224.55 जरान, एक समय यह 224.55 अंक टूट गया था। लेमन मार्केट्स डेस्क के विश्लेषक सतीश चंद्र अलूरी ने कहा, 'जून में अस्थिर शुरुआत के साथ मानक सूचकांक मामली गिरावट के साथ बंट हम।' मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।' सेंसेंक्स में शामिल कंपनियों में टेक

विदेशी लिवाली से रुपये में तेजी

सोमवार को विदेशी लिवाली के दम पर डॉलर के मुकाबले रुपये में मजबूती आई। डीलरों के मुताबिक डॉलर में गिरावट दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के 85.58 प्रति डॉलर के मकाबले आज रुपया 20 पैसा चढ़कर 85.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।चालू वित्त वर्ष में अब तक रुपया में 0.1 फीसदी और चालू कैलेंडर वर्ष में अब तक 0.27 फीसदी की तेजी आई है। एक सरकारी बैंक के डीलर ने कहा कि कुछ निवेश हुआ और डॉलर लुढ़क गया। उन्होंने कहा कि जब तक डॉलर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता है, मौजूदा स्तर में ही घट-बढ़ देखेंगे। बीएस

महिंद्रा, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक नुकसान में रहीं। *भाषा*

शेयर बाजार पर विदेशी ब्रोकर सतके

कमजोर वैश्विक वृहद हालात के कारण अल्पाविध के लिहाज से बाजारों पर विश्लेषकों का रुख सतर्क

पुनीत वाधवा नई दिल्ली, 2 जून

 देशी बोकरेज फर्में भारतीय देशी ब्रोकरंज फर्मे भारतीय इक्विटी बाजारों की आगामी राह को लेकर सतर्क बनी हुई हैं। हालांकि नोमूरा के विश्लेषकों ने अपने मार्च 2026 के निपटी लक्ष्य को पहले के 24,970 के स्तर से संशोधित कर 26,140 कर दिया है, लेकिन मौजूदा स्तरों से यह मामूली 6 प्रतिशत की वृद्धि है। दूसरी ओर, बोफा सिक्योरिटीज़ ने अपने वर्ष के अंत के निफ्टी लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं किया है। नोमूरा का कहना है कि निफ्टी 20.5 गुना

एक वर्षीय आगामी आय पर कारोबार कर रहा है, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके कारोबारी दायरे की ऊपरी सीमा के नजदीक है। नोमूरा में भारत के लिए इक्विटी शोध प्रमुख

प्तं प्रबंध निदेशक साथन मुखर्जी ने अमलान ज्योति दास के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट में लिखा है, 'हालांकि, अर्निंग यील्ड और बॉन्ड यील्ड के बीच -1.4 प्रतिशत का अनुकूल अंतर (जो पिछले चार वर्षों में प्रचलित सीमा के उच्च स्तर पर है) आरामदायक है। वित्त वर्ष 2027 की आय के 21 गुना पीई के आधार पर हमने अपना मार्च 2026 का निफ्टी लक्ष्य 26,140 तय

न्या है। बोफा सिक्योरिटीज के विश्लेषक भी



नोमुरा के विश्लेषकों ने अपने मार्च 2026 के निफ्टी लक्ष्य में मामूली 6 प्रतिशत की वृद्धि की है मगर बोफा सिक्योरिटीज ने कोई बदलाव नहीं किया है

कमजोर वैश्विक वृहद हालात की वजह से अल्पावधि के लिहाज से बाजारों पर सतर्क

बन हुए है। बोफा सिक्योरिटीज में इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजिस्ट अमीश शाह ने एक रिपोर्ट में कहा है, 'ताजा तेजी को देखते हुए, हमें निम्पटी के लिए वर्ष के अंत के लक्ष्य 25,000 में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। अल्पावधि में, धीरे-धीरे, हमें सात उभरते जोखिम दिखते . जो हमें निफ्टी / लार्जकैप पर सतर्क करते

रखे हुए हैं।'बोफा सिक्योरिटीज ने कहा कि बाजार अब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानांतरित करने का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी बन गया है। हालांकि, चल रहे व्यापार युद्ध के बीच किसी भी संभावित वैश्विक मंदी का अभी असर नहीं

खा है। बोफा का कहना है कि घरेलू और विदेशी, दोनों के संबंध में इक्विटी बाजारों के लिए निवेश प्रवाह जोखिमपूर्ण बना हुआ है।

क्षत्री पर नगर एक रणनीति के रूप में, नोमूरा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए निर्यातकों की तुलना में घरेलू-केंद्रित क्षेत्रों को पसंद करता है और निवेश थीमों की तुलना में खपत पर जार देता है। नोमूरा ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेश चक्र में देरी

डीआईआई प्रवाह आने वाले महीनों में अस्थिर रह सकता है और कमजोर भी हो सकता है। आंकड़े से पता चलता है कि घरेलू

प्रवाह अक्टूबर 2024 में 8.6 अरब डॉलर की ऊंचाई पर था और उसके बाद से अप्रैल

2025 में नरम पड़कर 6.1 अरब डॉलर

होने की आशंका है। ऑटो, फार्मास्युटिकल्स/केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जैसे सप्लाई-चेन रीलोकेशन थीम उनके पसंदीदा क्षेत्र हैं। फाइनैशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटो, डिस्क्रेशनरी, तेल और गैस, पावर, टेलीकॉम, इंटरनेट, रियल एस्टेट और चुनिंदा घरेलू हेल्थकेयर क्षेत्र उनके कुछ अन्य प्रमुख दांव हैं। मुखर्जी ने लिखा है, 'इंडस्ट्रियल में, हम

उन कंपनियों पर सकारात्मक हैं जो पावर सेक्टर में निवेश पर जोर दे रही हैं। हम निर्यात क्षेत्रों और पंजीगत थीमों पर सतर्क हैं। इनमें आईटी सेवाएं, इंडस्ट्रियल, सीमेंट और धातुएं

फॉर्म संख्या सीएए-2 (कंपनी अधिनियम, 2013 की पार 20(3) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 6 और 7 के अनुसारा (सम्प्रतीत: व्यावसा और एकीकरण) नियम, 2016] नैशनल कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष, अस्मदाबाद हिंदीमत्र वेंच, कोर्ट-1 अस्परावाद में सीए (सीएए) अप्टाप्यत्म, 2023 (कंपनी सीवियन 2013 की यार 20 से 232 के अंतर्गत)

इस मामले में: मासिवस ऑटोमेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड और सोनेपर इंडिया प्राइ निमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों के बीच विलय की योजना

... इ**स मामले में:** कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा २३० से २३२ तथा अन्य लागू प्रावधान, कंप (समझौता, व्यवस्थाऔर एकीकरण) नियम, २०१६ के साथ पठित।

मासियस ऑटोमेशन एंड इंस्ट्र्मेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड ("ट्रांसफरर कंपनी"), जिसका पंजीकृत कार्यालय यहां है: बी- 30 जीआईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट सेक्टर-25, गांधीनगर, गुजरात, भारत, 382042

गांधीनगर, गुजरात, भारत, ज्यान्य संनेपार इंडिया प्राइवेट स्त्रिपिट (दोसकोट कंपनी), जिसका प्रतीकृत कावांस्व इस पत्रे पर है. 507, इवी मारित, भोकांकी काम पत्र, भोकांकी काम प्लेस, नई दिल्ली, दिल्ली, 10066

हस्तान्तरण्याता वर्षणा/अध्यक्त करणां क असुरातात राज्यत को कार्यत का किया ने का पूर्वण के स्तुवण के स्तुवण

कंपनी	वैठक	तारीख	समय	कार्यक्रम का स्थान
मासिबस ऑटोमेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइयेट लिमिटेड	असुरक्षित लेनदार	05 जुलाई, 2025	10.30 पूर्वीह	बी- 30 जीआईडीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट सेक्टर-25,गांधीनगर, गुजरात, भारत, 382042.

शाब व्याराज्य रूपमा भागा गावा है। बैठकों में उपस्थित होने और मददान करने के लिए पात्र व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉबसी द्वार मतदान कर सकते हैं, बशरों कि निर्धारित प्रपन्न में ग्रॉबसी बैठक के समय से 48 घंटे पूर्व बी-36 इकेदानिक्स एस्टेर सेक्टर-25, गांधीनगर, गुजरात, भारत, 382042 में ट्रांसफरर कंपनी के पंजीकृ कार्यात्मय मैं माम करा दी जाए। कावाराच न जना करा था जाटा प्रॉक्सी का फॉर्म ट्रांसफरर कंपनी के पंजीकत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है

अस्ताता के अन्य संपन्न के प्राप्त कर जान के जीवन के अस्ति के स्वति के अस्ति के अस्ति अस्ति के अस्ति अस्ति अस्ति मानिया में मानिया में मानिया में मानिया में अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस् अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्ति के अस्ति अस्त

Sd/-श्री. कुलदीप कुमार करीर, पूर्व सदस्य एनसीएलटी अध्यक्ष को असुरक्षित लेनदारों की बैठक के लिए नियुक्त किया गया

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold, or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer(LICP) dated May 13, 2005. filed with National Strike Exchange of India CREEN!



DOLLEX AGROTECH LIMITED

OUR PROMOTERS: MR. MEHMOOD KHAN AND MRS. MUNNI KHAN (THEISSUE)

ISSUE OF UP TO 1,49,80,800 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 710 - EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF 733 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF 7 23 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO 7 4,943,561,044% ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREROLDERS OF OUR COMPANY IN THE AUTHOR OF SHARISTS EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARES FOR EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE OF EVERY 5 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHARE HELD

ATTENTION INVESTORS

NOTICE TO ELLGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY – CORRIGENDUM CUM APPLICATION TO LETTER OF OFFER DATED 13TH MAY, 2025

The notice should be read in conjunction with the letter of offer dated May 13, 2025, filed by the Company with the Stock Exchange and SEBI and the LOF and CAF that have the liber being better of the Company. The Eligible Equity Standardioties are requested to plasse note the following:
This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, within opened on Thursday, May 21, 2025 and was scheduled Wednesday, June 04, 2025 has now extended from Wednesday, June 04, 2025 to Issessay, June 10, 2025, by the Rights Issue Committee in its meeting held on 02nd J order to provide an opportunity to Shareholders to waters before inclined in the Rights Issue.

provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the rights issue.

The provides an opportunity to shareholders to exercise their rights in the rights issue.

The provides are desired provides of the Duly Bell on CRF Edings with the amount payable on application) is Tuesday, June 10, 2025 Equity Shareholders of the coapply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the Issue Closure Date as Tuesday, June 10, 2025.

REVISED ISSUE SCHEDULE

Issue Opening Date	Wednesday, May 21, 2025	
Issue Closing Date	Tuesday, June 10, 2025	
Finalising the Basis of Allotment with Designated Stock exchange	Wednesday, June 11, 2025	
Date of Allotment	Wednesday, June 11,2025	
Date of Credit (on or About)	Thursday, June 12,2025	
Date of Listing (on or About)	Thursday, June 12,2025	

issue (pening Usals). "Threstors are advised to ensure that the Application Forms are submitted on or before the Issue Closing Date. Our Company, and/or the Registrar to the Issue will not be liable for any loss on account of non-submission of Application Forms or or before the Issue Closing Date.

**Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that remarkation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demait account of the Remounce(s) on or prior to the Issue Closing Date.

no change in the LDF dated May 13, 2025 and Application Form except for modification in the last date of Issue Closing date. Change in Issue closing date resultant

change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM SHALL BE READ IN CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM

Place: Indire Company is proposing, subject to neelpt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shears on a right passass and has little at Letter of Offer dated May 13, 2025 with National Stock Exchange of India Limited and is submitted to Securities and Exchange Board of India for Information and dissemination. The Letter of Offer is assistable on the website of SPEII at www.seld.poin, 150cb Exchanges where the Equity Shears are listed is EXE at www.nestedion. Of Company at www.dolleckin and the Registrar to the Issue at www.edvilinerta.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section? Risk Factors beginning on page 23 of the Letter of Offer. This amountement on the India States, and any Risk Equity Shares in the United States. and sent or constitute and offer in Right Equity Shares in Section (Section Section Se

भारत डायनेमिक्स: ऑर्डर् पूरा करने पर देना होगा ध्यान

राम प्रसाद साहू

रक्षा क्षेत्र की प्रमुख सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स (बीडीएल) ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी ति में मिलाजुला प्रदर्शन किया है। जहां ्राज्या राजस्व एक साल पहले के मुकाबले दोगुना हो गया, वहीं मुनाफा औसत से कम रहा। कंपनी के पास ऑर्डर और कैस्टरॉप उसका राजस्व एक साल पहले के मजबूत हैं जिससे आगे चलकर मजबूत राजस्व की संभावना है।

ब्रोकरों का मानना है कि कंपनी के लिए कार्यान्वयन की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गाइडेड मिसाइल और संबंधित उपकरण बनाती है। विश्लेषक मध्यावधि से दीर्घावधि नजरिये से इस शेयर पर सकारात्मक नजारव सइस शवर पर सकारात्मक हैं। यह शेयर महज तीन महीने में 93 फीसदी तक चढ़ा है। हालांकि अल्पावधि में तेजी सीमित रह सकती है, क्योंकि यह शेयर अपने 34 गुना के पांच वर्षीय औसत के मुकाबले 54 गुना के आसपास कारोबार कर रहा है।

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 108 प्रतिशत और तिमाही आधार पर 112 प्रतिशत बढ़कर 1,770 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2025 में सालाना आधार पर राजस्व में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह लगभग 3,345 करोड हपये रहा। राजस्व के मोर्चे पर वृद्धि को बेहतर क्रियान्वयन से मदद मिली।

और बैकलॉग के साथ उन्हें पूरा करने पर निर्भर करेगी। कंपनी ने त्त वर्ष 2025 में 6,660 करोड़ रुपये के ऑर्डर लिए। इनमें मध्यम



में 93 फीसदी की तेजी आई

रेंज की सरफेस-टु-सरफेस एयर मिसाइलों (एमऑरएसएएम) से संबंधित सौदे ज्यादा थे। इसके संबाधत साद ज्यादा था इसके अलावा भारतीय सशस्त्र बलों के हथियारों की आपूर्ति से भी ऑर्डर बुक बढ़ी। ऑर्डर बुक और बैकलॉग वित्त वर्ष 2025 की बिक्री का सात गुना है। इसके अलावा, लगभग 20,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर प्रस्ताव भी तीन साल के नज्िए से मज्बूत है। इनमें अस्त्र एमके 2 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एमआरएसएएम और क्विक रिएक्शन एसएएम

(क्यूआरएसएएम) का बड़ा ऑर्डर शामिल है। शामल ह। दमदार ऑर्डर बुक और बैकलॉग के बावजूद कंपनी आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों की वजह से कुछ ऑर्डरों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकी। उसे दो-तीन साल से आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑर्डरों का सामना करना पड़ रहा हो आडत को पूरा करने में विलंब मुख्य रूप से युद्ध प्रभावित देशों रूस और इजरायल की वजह से भी हुआ जिनके कुछ पुजों पर उसकी निर्भरता है। ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का मानना है अब ये चनौतियां धीरे धीरे घट रही हैं और वित्त वर्ष 2026 में न्द्र रहा है आर ।वत्त वर्ष 2026 में कंपनी 30 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज कर सकती है।